

प्रेस नोट-दिनांक 10-10-2021

"आजादी के अमृत महोत्सव समारोह" के अंतर्गत आज दिनांक 10-10-2021 की सुबह को जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त कार्यालयों, पुलिस लाइन व समस्त थानों में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत कार्यालयों के अंदर वह बाहर के परिसर की संपूर्ण सफाई सभी की सहभागिता से की गई। उक्त अभियान में समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन में सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व प्रदीप यादव क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।

प्रेस नोट-दिनांक 10-10-2021

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 02 शोहदे धरे गये।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.10.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियो/ शक्ति मोबाइल महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर व कपिलवस्तु में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 02 शोहदे पकड़े गये। पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

- 01-महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर
- 02-महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट-दिनांक 10-10-2021

01 अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 60 (1) के तहत गिरफ्तार, 18 शीशी बंटी बबली देसी शराब बरामद

डॉ० श्री यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री राजेश कुमार मौर्या थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 10.10.2021 को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 01नफर अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु०अ०स० 84/2021

धारा 60 (1) एक्ट के तहत गिरफ्तार कर, अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. पंचदेव कुमार पुत्र रामप्रकाश साकिन अजगरा थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. Hc इन्द्रेश यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

02. का० उधम सिंह थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

प्रेस नोट-दिनांक 10-10-2021

आज दिनांक 10-10-2021 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया ।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 10-10-2021 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में कुल 03 पत्रावलियां विचारार्थ प्रस्तुत हुई । जिसमें से 01 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुये । 01 पत्रावली मे एक पक्ष उपस्थित हुआ . 01 पत्रावली निरस्त की गयी.परामर्शन के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण संभव हुआ । 01 परिवारों को बिखरने से बचाने में श्रीमती मीरा चौहान, थानाध्यक्ष, महिला थाना, मुख्य आरक्षी श्रीमती सवित्री तिवारी, महिला आरक्षी ब्यूटी गिरी, महिला आरक्षी निधि सिंह, तथा काउन्सलर श्री विनयकान्त मिश्र व श्री समशुल हक का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण :-

1- श्रीमती सबिता पत्नी धर्मराज सा० गडावल बाजार थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट-दिनांक 10-10-2021

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 10.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में उ.नि. राघवेन्द्र प्रताप यादव मय टीम द्वारा ग्राम परसोहिया वानगंगा नदी के पास से 01 व्यक्ति को टैम्पो पर अवैध नेपाली यूरिया के साथ अन्तर्गत धारा 11 कस्टम एक्ट गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है-

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जोगिन्दर चौधरी पुत्र राम सजीवन चौधरी निवासी लक्ष्मीनगर चौराहा थाना पचपेड़ा जनपद बलरामपुर बरामदगी का विवरण –

टैम्पू संख्या UP55T5545 पर 10 बोरी यूरिया खाद आईपीएल कम्पनी 45/45 किलो कुल 450 किलो

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ०नि० राघवेन्द्र प्रताप यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

हेका. नरसिंह कुशवाहा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

हेका. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर